

तुरंत रिलीज के लिए

## इस सितम्बर ब्रैम्पटन टी मंथ मनाएं!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 अगस्त, 2021) – इस सितम्बर ब्रैम्पटन के पेड़ों का जशन मनाने के लिए, हमारे पहले नियत किए टी मंथ (Tree Month) के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ जुड़ें! सिटी और इसके साझेदार, इस महत्वपूर्ण महीने के हिस्से के तौर पर, रोमांचक पेड़ प्रोग्राम सहित, कार्यक्रमों और पहलकदमियों का आयोजन करेंगे। ब्रैम्पटन टी मंथ का प्रायोजक सी.एन. (CN) है।

### रेजिडेंशियल ट्री गिवअवे (10 सितम्बर, 2021 से शुरू)

ब्रैम्पटन के निवासियों हेतु हमारे रेजिडेंशियल ट्री गिवअवे (Residential Tree Giveaway) के लिए रजिस्ट्रेशन, 10 सितम्बर को शुरू होगा! सिटी, रजिस्टर करने वालों को कई प्रकार की प्रजातियों (रेड मैपल, रेड ओक, बर ओक और व्हाइट स्प्रूस) में 2,400 पेड़ वितरित करेगी। एक परिवार के एक मेम्बर को ही पेड़ दिए जाएंगे और इन्हें केवल निजी प्रॉपर्टी (आगे वाले या पिछले यार्ड में) पर ही लगाया जा सकता है। हिस्सा लेने वाले निवासियों के लिए रजिस्टर करना आवश्यक है। पेड़, 25 सितम्बर के वीकेंड को खुद आकर लेने के लिए उपलब्ध होंगे। [www.brampton.ca/trees](http://www.brampton.ca/trees) पर और जानकारी पाएं।

### सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ें

अपने पसंदीदा पेड़ या ब्रैम्पटन में लगे पेड़ों की फोटो खींचें और #BramptonTrees का प्रयोग करते हुए, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी फोटो हमारे चैनलों @CityBrampton पर और वेबसाइट [www.brampton.ca/trees](http://www.brampton.ca/trees) पर दिखाई जाएं।

### नैचुरल हेरिटेज सिस्टम्स सर्वेक्षण

हमें बताएं कि आप ब्रैम्पटन के जंगलों, वेटलैंड्स, वैलीलैंड्स, घास के मैदानों, अन्य कुदरती जगहों और उन जगहों के बारे में क्या सोचते हैं, जहां ब्रैम्पटन में आप कुदरत का आनंद लेने के लिए जाते हैं। इसमें इनाम जीतने की संभावना है।

[नैचुरल हेरिटेज सिस्टम्स सर्वेक्षण \(Natural Heritage System Survey\)](#) भरें।

### पेड़-स्रोत

इन उपयोगी पेड़ संसाधनों – या पेड़-स्रोतों का प्रयोग करते हुए पेड़ों के बारे में सब कुछ जानें और टी मंथ में हिस्सा लें!

- [ब्रैम्पटन ट्रीज \(Brampton Trees\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के द्वारा पेड़ों की देखभाल संबंधी सुझाव \(Tree Care Tips from the City of Brampton\)](#)
- [इंटरएक्टिव ट्री ट्रैकिंग टूल \(Interactive Tree Tracking Tool\)](#)

- [वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम \(One Million Trees Program\)](#)
- [ट्री कॅनेडा \(Tree Canada\)](#)
- [नैशनल फोरेस्ट वीक: 19 से 25 सितम्बर, 2021 \(National Forest Week: September 19 to 25, 2021\)](#)

### ब्रैम्पटन के पेड़ों के बारे में तथ्य

- इस समय ब्रैम्पटन में लगभग 3.6 मिलियन पेड़ हैं, जो कुल ज़मीन के 18 प्रतिशत भाग पर हैं।
- पिछले पांच वर्षों में, सिटी और इसके भागीदारों – जिनमें शामिल हैं, संरक्षण अथॉरिटीज, रीजन ऑफ पील (Region of Peel), स्कूल बोर्ड और विकास इंडस्ट्री – ने ब्रैम्पटन में हर वर्ष औसतन 43,000 पेड़ लगाए हैं।
- 2014 के बाद से, ब्रैम्पटन में एक तिहाई मिलियन पेड़ लगाए गए हैं।

### हवाले

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने, सितम्बर को ब्रैम्पटन ट्री मंथ के तौर पर घोषित किया है! ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और हम हमारे शहर के शहरी जंगल को सुरक्षित रखने और 2040 तक एक मिलियन पेड़ लगाने के लिए क्रियाशील ढंग से काम कर रहे हैं। पेड़ सभी को बहुत-से लाभ देते हैं, जिनमें शामिल हैं, अधिक साफ हवा, जलवायु संबंधी बदलाव के प्रभावों को कम करना, प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि करना और हमारी कम्युनिटी को खूबसूरत बनाना।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन, ट्री मंथ की बधाई हो! इस महत्वपूर्ण महीने के हिस्से के तौर पर, मैं हर किसी को सैर करने और ब्रैम्पटन के नैचुरल हेरिटेज सिस्टम के बारे में जानने, पेड़ लगाने और इसे हमारे ट्री ट्रेकिंग टूल में टैक करने, स्थिर जंगल प्रबंधन के बारे में और जानने तथा [www.brampton.ca/trees](http://www.brampton.ca/trees) की पड़ताल करने की सलाह देती हूँ।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन ट्री मंथ, हमारे शहर में हर किसी के लिए, पेड़ों के महत्व को समझने और इसके बारे में जानने का अवसर है। रेजिडेंशियल ट्री गिवअवे में हिस्सा लें, #BramptonTrees का प्रयोग करते हुए फोटो पोस्ट करें और हमारे संसाधनों और पहलकदमियों की पड़ताल करें।”

- *शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस- चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, ब्रैम्पटन की खूबसूरत पेड़ कैनोपी लगाने, उसे संभालने और सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन ट्री मंथ, हमारे ग्रीन एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान, अर्बन फोरेस्ट मैनेजमेंट प्लान और कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्रोग्राम की हिमायत करता है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)